

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- अक्टूबर 23, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***100 वाहनों का चालान , 32 वाहनों से कुल 25300/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 00*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 69 व्यक्तियों से 6900/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया। व धारा 290 भादवि मे 00 चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय किया गया।

अबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामनयन नि0 सुचितपुर पनियरा महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0-275/20 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त कमलेश पुत्र प्रहलाद नि0 मण्डी निचलौल महाराजगंज के कब्जे से 340 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0-185/20 धारा-60/63 अबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मोहन लोध पुत्र पंचम नि0 केवटलिया सोनौली महाराजगंज के कब्जे से 16 शीशी नेपाली अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0-192/20 धारा-60/63 अबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कस्टम अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नागेन्द्र यादव पुत्र नंद कुमार नि0 कोटही माई थाना मझगावा जनपद रूपनदेही नेपाल राष्ट्र आदि 07 नफर के कब्जे से 09 बोरी यूरिया खाद व 04 बोरी डाई खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण- 1.सुनील पुत्र वीरेन्द्र नि0 राजधानी 2.असमुददीन पुत्र आबीद नि0गण बुढवा थाना निचलौल मह0 के कब्जे से 450 किलोग्राम मटर, 100 किलोग्राम मटर दाल व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल- 06 विवेचनाओं का निस्तारण** किया गया।

जनपद में 22/23-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 22 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।